

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 मार्च 2023

### प्रश्न -1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है?

- A) नागालैंड
- B) कर्नाटक
- C) बिहार
- D) असम

**सही उत्तर: B**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह हवाई अड्डा 449.22 करोड़ रुपये के निवेश से 663 एकड़ भूमि पर बनाया गया है।

### प्रश्न-2

अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है?

- A) 46
- B) 44
- C) 42
- D) 40

**सही उत्तर: C**

US चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स पर 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 42वें स्थान पर है, जिसके अनुसार भारत IP-संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने की मांग करने वाले उभरते बाजारों के लिए एक नेता बनने के लिए परिपक्व है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 मार्च 2023

### प्रश्न-3

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है?

- A) उत्तर प्रदेश
- B) राजस्थान
- C) हिमाचल प्रदेश
- D) बिहार

**सही उत्तर: B**

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के बीकानेर में डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान में पहली बार किया जा रहा है। 25 फरवरी से शुरू हुआ यह महोत्सव पांच मार्च तक चलेगा।

### प्रश्न-4

निम्नलिखित में से किसने कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब जीता?

- A) एंडी मरे
- B) कार्लोस अल्काराज़
- C) दानिल मेदवेदेव
- D) नोवाक जोकोविच

**सही उत्तर: C**

दानिल मेदवेदेव ने कतर ओपन के फाइनल में एंडी मरे को हराकर कुछ हफ्तों में लगातार अपना दूसरा खिताब जीता। करियर के 47वें खिताब के लिए दावेदारी पेश कर रहे मरे ने रूस के इस खिलाड़ी को कड़ी चुनौती दी लेकिन दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी के खिलाफ उन्हें 6-4, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 मार्च 2023

### प्रश्न-5

निम्नलिखित में से कौन महिला टी20 विश्व कप में अग्रणी विकेट लेने वाली गेंदबाज है?

- A) एनया शरूबसोले
- B) निदा डार
- C) पूनम यादव
- D) शबनीम इस्माइल

**सही उत्तर: D**

दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल कुल मिलाकर महिला टी 20 विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। इस्माइल ने 32 टी20 विश्व कप मैचों में 5.83 की इकॉनमी रेट से 43 विकेट लिए हैं जिसमें 3/5 का उनका सर्वश्रेष्ठ शामिल है।

### प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किसे 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?

- A) सर्गेई ब्रिन
- B) राज रेड्डी
- C) हरि बालकृष्णन
- D) आर्थर सी. क्लार्क

**सही उत्तर: C**

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ( MIT) के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए एक शीर्ष सम्मान है और अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया जाता है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 मार्च 2023

### प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किस राज्य से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन- 2023 लॉन्च किया गया था?

- A) तमिलनाडु
- B) ओडिशा
- C) केरल
- D) कर्नाटक

**सही उत्तर: A**

मार्टिन फाउंडेशन ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से 19 फरवरी को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन-2023 लॉन्च किया।

### प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस ई-कॉमर्स कंपनी ने ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन विक्रेताओं के रूप में शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) अजिओ
- B) अमेज़न
- C) फ्लिपकार्ट
- D) मीशो

**सही उत्तर: D**

ग्रामीण विकास मंत्रालय और मीशो ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLMs) के तहत पंजीकृत सभी महिलाओं के डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने और उन्हें ऑनलाइन बिक्री करने में सक्षम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 05 मार्च 2023

### प्रश्न-9

निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 350 करोड़ रुपये के सौदे के हिस्से के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम किट को प्रायोजित करने के लिए तैयार है?

- A) एडिडास
- B) नाइकी
- C) पुमा
- D) रिबॉक

**सही उत्तर: A**

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम के किट प्रायोजक के रूप में 350 करोड़ रुपये में अनुबंधित करने के करीब है, BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किसने ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 पुरस्कार जीता?

- A) अरुंधति राँय
- B) ओ.वी विजयन
- C) थाकाज़ी शिवशंकर पिल्लई
- D) वी. मधुसूदनन नायर

**सही उत्तर: D**

कवि वी. मधुसूदनन नायर को गुरुवायूर देवस्वोमद्वारा स्थापित ज्ञानप्पन पुरस्कार- 2023 के लिए चुना गया था। पुरस्कार में 50,001 रुपये, गुरुवायूरप्पन का एक सोने का लॉकेट और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।